



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 1979/पौष 22, 1900

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 1979/PAUSA 22, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1979

क्र. आ. 26(अ).—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ
आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 8 की उपधारा (1)
के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की
धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन किया गया
निम्नलिखित आदेश प्रकाशित किया जाता है,—

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने, अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित
जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 8 की उप-
धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-
क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1978 में संशोधन करने के लिए तारीख 9
सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र और केरल राज्य के शासकीय
राजपत्र में अपनी प्रस्थापनायें प्रकाशित की थी ;

और, इस आयोग द्वारा केरल राज्य के बारे में इन प्रस्थापनाओं
के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर 28 अक्टूबर, 1978
को कालीकट और तारीख 2 नवम्बर, 1978 को त्रिवेन्द्रम में हुई
सार्वजनिक बैठकों में विचार किया गया था ;

यह आयोग, केरल राज्य के सम्बन्ध में संसदीय और विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1978 में (ऐसे आदेश में यथादर्शित
किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन न करते हुए)
निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. उक्त आदेश की अनुसूची 2 में मद 9-केरल के सामने—
 - (1) स्तम्भ 6 के नीचे अंक "12" के स्थान पर अंक "13" रखा जाएगा, और
 - (2) स्तम्भ 7 के नीचे अंक "2" के स्थान पर अंक "1" रखा जाएगा, और
2. उक्त आदेश की अनुसूची 11 में—
 - (1) भाग क—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में—
 - (1) 4-कालीकट में, विद्यमान प्रविष्टि "30-सुल्तान की बैटरी (अ. ज. जा.)" के स्थान पर "30-सुल्तान की बैटरी" प्रविष्टि रखी जाएगी, और
 - (2) 8-आटापालम (अ. जा.) में, विद्यमान प्रविष्टि "43-थीथाला" के स्थान पर "43-थीथाला (अ. जा.)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (2) भाग ख—विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में—

- (1) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम "43-थ्रीथाला" के स्थान पर, "43-थ्रीथाला (अ.जा.)" रखा जाएगा : और
- (2) निर्वाचन की क्रम संख्या तथा नाम "30-सुल्तान की बटरी (अ.जा.)" के स्थान पर "30-सुल्तान की बटरी" रखा जाएगा।

श्याम लाल शकधर,

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त।

आदेश से,

[सं. 282/केल/अ.जा.अ.ज.जा./78]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1979

S.O. 26(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 8 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the following Order made by the Election Commission under clause (d) of sub-section (3) of section 6 of the Act is hereby published :—

ORDER

Whereas under clause (a) of sub-section (3) of section 6 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the proposals of the Election Commission to amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, were published in the Gazette of India and in the official Gazette of the State of Kerala on 9th September, 1977;

And whereas all objections and suggestions received in relation to the said proposals relating to the State of Kerala were considered by the Commission at public sittings held at Calicut on 28th October, 1978 and at Trivandrum on 2nd November, 1978.

The Commission hereby makes the following amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order) in respect of the State of Kerala.

I. In Schedule II of the said Order, against item 9 Kerala—

- (i) under column 6, the figure "13" shall be substituted for the figure "12"; and
- (ii) under column 7, the figure "1" shall be substituted for the figure "2"; and

II. In Schedule XI of the said Order—

(1) in Part A—Parliamentary Constituencies —

- (i) in 4-Calicut, the entry "30-Sultan's Battery" shall be substituted for the existing entry "30-Sultan's Battery (ST)"; and
- (ii) in 8-Ottapalam (SC), the entry "43-Thrithala (SC)" shall be substituted for the existing entry "43-Thrithala";

(2) in Part B—Assembly Constituencies—

- (i) the serial number and name of the constituency, "43-Thrithala (SC)" shall be substituted for "43-Thrithala"; and
- (ii) the serial number and name of the constituency, "30-Sultan's Battery" shall be substituted for "30-Sultan's Battery (ST)".

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner

By order,

[No. 282/KL/SC-ST/78]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy. to the Election Commission